

## ASI ने भोजशाला सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण \(Archaeological Survey of India- ASI\)](#) ने वविदति [भोजशाला-कमाल-मौला मसजिद परसिर](#) की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश [उच्च न्यायालय](#) की इंदौर पीठ को सौंपी।

### मुख्य बदि:

- सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में [परमार वंश/काल](#) (9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच) की मध्यकालीन संरचना के अवशेष हैं। इस स्थल का निर्माण और विकास राजा भोज ने धार ज़िले में किया था।
- लगभग 98 दिनों तक चले सर्वेक्षण में लगभग 1700 अवशेष और अन्य साक्ष्य सामने आए।
  - खोजी गई नक्काशी में विविध प्रकार की छवियाँ शामिल थीं, जिनमें देवताओं की अपवतिर मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और अन्य अवशेष (मानव एवं पशु आकृतियाँ) शामिल थीं।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजशाला की मौजूदा संरचना मूलतः एक मंदिर थी तथा यह साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र भी थी।
- हद्दि समुदाय भोजशाला को [वाग्देवी \(देवी सरसवती\)](#) को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मसजिद कहते हैं।

### भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- [संस्कृति मंत्रालय](#) के अंतर्गत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, राष्ट्र की सांस्कृतिक वरिसत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानदिशक [अलेक्जेंडर कनधिम](#) द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनधिम को [“भारतीय पुरातत्त्व का जनक”](#) भी कहा जाता है।